

No. of Printed Pages : 4

**BPCC-105**

**BACHELOR OF ARTS (HONS.)**

**PSYCHOLOGY (BAPCH)**

**Term-End Examination**

**December, 2021**

**BPCC-105 : PSYCHOLOGICAL RESEARCH**

*Time : 2 Hours*

*Maximum Marks : 50*

**Note :** (i) Attempt any **five** of the following questions in about **300** words each.

(ii) Attempt at least **two** questions from each Section is compulsory.

(iii) All questions carry equal marks.

---



---

**Section—A**

1. Discuss ethical issues in psychological research.

10

**P. T. O.**

2. Explain the meaning of constructs and its types. 10
3. Describe the purpose and types of sampling. Explain the criteria to infer appropriate sample size. 5+5
4. Write short notes on the following in about **150** words each : 5+5
  - (a) Reliability
  - (b) Norms

**Section—B**

5. Explain quantitative methods of data collection. 10
6. Describe the meaning, sources and types of hypothesis. 10
7. Define a variable. Describe the different types of variables. 2+8
8. Write short notes on the following in about **150** words each : 5+5
  - (a) Mix Approach research design
  - (b) Control groups

**BPC-105**

बी. ए. ( ऑनर्स ) मनोविज्ञान

( बी. ए. पी. सी. एच. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर . 2021

बी.पी.सी.सी.-105 : मनोवैज्ञानिक अनसंधान

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

**नोट :** (i) निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में दीजिए।

(ii) प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिए।

(iii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**भाग—क**

1. मनोवैज्ञानिक शोध में नैतिक मद्दों पर चर्चा कीजिए। 10
2. निर्मिति का अर्थ तथा निर्मिति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10

P. T. O.

3. प्रतिदर्श के उद्देश्य एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त प्रतिदर्श आकार प्राप्त करने के मानदंड का वर्णन कीजिए। 5+5
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लगभग 150 शब्दों में लिखिए : प्रत्येक 5
  - (क) विश्वसनीयता
  - (ख) मानक

**भाग—ख**

5. आँकड़ा संग्रह की मात्रात्मक विधियों का वर्णन कीजिए। 10
6. परिकल्पना के अर्थ, स्रोत एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 10
7. चर को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के चरों की व्याख्या कीजिए। 2+8
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लगभग 150 शब्दों में लिखिए : प्रत्येक 5
  - (क) मिश्रित दृष्टिकोण अनसंधान विधि
  - (ख) नियंत्रण समह

**BPC-105**